

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 233

दिनांक 25.07.2000 को उत्तर के लिए

राजभाषा हिंदी का प्रचार

233. श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजभाषा हिंदी के व्यापक प्रचार के लिए सरकार द्वारा कितने लघु दस्तावेजी फिल्मों और टी0वी0 स्पॉट तैयार किए गए और दूरदर्शन पर प्रसारित किए गए;

(ख) चालू वर्ष के दौरान ऐसी कितनी लघु दस्तावेजी फिल्मों और टी0वी0 स्पॉट तैयार किए जाने का प्रस्ताव है ; और

(ग) देश भर में राजभाषा के व्यापक प्रचार के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

गृह राज्य मंत्री (आई0 डी0 स्वामी)

(क) गत 3 वर्षों के दौरान कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने के संबंध में वर्ष 1997 में एक लघु फिल्म बनवाई गई ।

(ख) चालू वर्ष के दौरान विभाग द्वारा कोई लघु वृत्तचित्र / टी0वी0स्पॉट बनवाने का प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) विगत वर्षों में राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए विभाग द्वारा 19 वृत्तचित्रों तथा 4 टी0वी0 स्पॉट्स का निर्माण करवाया गया है । समय-समय पर राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए एक वार्षिक कैलेंडर तथा विभिन्न प्रकार के पोस्टरों का प्रकाशन करवाया जाता है । विभाग द्वारा रू राजभाषा भारती- नामक त्रैमासिक पत्रिका तथा मासिक पत्र रू राष्ट्रीय राजभाषा समाचार- का भी प्रकाशन किया जाता है । उपर्युक्त सामग्री देशभर में स्थित भारत सरकार के मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों / संस्थानों आदि में वितरित की जाती है । राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए राजभाषा विभाग सहित विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों / उपक्रमों तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों द्वारा देश भर में सम्मेलन / संगोष्ठियों आदि भी आयोजित की जाती हैं । विभाग द्वारा 5 फरवरी, 2000 से 13 फरवरी, 2000 तक आयोजित विश्व पुस्तक मेले में पहली बार अपना स्टाल भी लगाया गया जिससे हिंदी में प्रकाशित स्तरीय पत्र-पत्रिकाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार हुआ और लेखकों और विद्वानों को इस बात की जानकारी मिली कि सरकारी स्तर पर हिंदी में स्तरीय पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है ।